

## प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल दिनांक 25-06-2021

### कूटरचित तरीके से फर्जी बिल तैयार करने वाले दो शातिर अपराधी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में अपराधों पर रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक जगत नरायन सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर मय उ0नि0 राजेश कुमार सिंह व उ0नि0 धर्मेन्द्र जैन मय टीम को अपराध पर अंकुश लगाने एवं पर्दाफाश हेतु लगाया था। टीम द्वारा लगातार तलाश व दबिश की कार्यवाही की जा रही थी जिसके क्रम में आज दिनांक 25.06.2021 को मुखबिर ने बताया कि साहब लैपटाप से दूसरे कम्पनी का नाम व जीएसटी इस्तेमाल कर कूटरचित तरीके से फर्जी बिल बनाते है जिसके सम्बन्ध मे आपके थाना पर मु0अ0सं0 241/2021 धारा 419/420/467/468/471/506 भादवि पंजीकृत है। उससे सम्बन्धित दो व्यक्ति अमर उजाला तिराहा पर खड़े है। अगर जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर के साथ अमर उजाला तिराहा से कुछ दूर पहले पहुँचा तो मुखबिर सड़क के किनारे खड़े दो व्यक्तियों की तरफ इशारा करके हट बढ़ गया कि उक्त दोनो व्यक्तियों के पास हम पुलिस वाले पहुँचे तो हम पुलिस वालो को देखकर हड़बड़ा गये तथा भागने का प्रयास किये तो मौके पर घेर कर पकड़ लिया गया। जिनसे नाम पता पूछा गया तो 1.प्रभाकर त्रिपाठी पुत्र स्व0 गणेश शंकर त्रिपाठी निवासी ग्राम कोहरगद्दी थाना परसा मलिक जनपद महाराजगंज 2. गुलाब चन्द पासवान पुत्र रामरूप निवासी ब्रह्मपुर थाना पनियरा जनपद महाराजगंज बताया जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 241/2021 धारा 419/420/467/468/471/506 भादवि पंजीकृत है। अतः अपराध का बोध कराते हुए अभियुक्तगणो को समय करीब 18.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. प्रभाकर त्रिपाठी पुत्र स्व0 गणेश शंकर त्रिपाठी निवासी ग्राम कोहरगद्दी थाना परसा मलिक जनपद महाराजगंज उम्र 25 वर्ष
2. गुलाब चन्द पासवान पुत्र रामरूप निवासी ब्रह्मपुर थाना पनियरा जनपद महाराजगंज उम्र 37 वर्ष

#### पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 241/2021 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक जगत नरायन सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र जैन थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 लक्ष्मण सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
5. का0 अंकित कुमार सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर